



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

31 ज्येष्ठ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 269) पटना, वृहस्पतिवार, 21 जून 2012

---

पत्रांक 11/वि0-2-पि0ब0आ0-6/2005- सा.प्र.-8701  
सामान्य प्रशासन विभाग

-----

प्रेषक,

नवीनचन्द्र झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।

सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।

सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना।

पटना-15, दिनांक 18 जून, 2012

विषय:-बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) का सम्प्रेषण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तात्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या 2927, दिनांक 21.07.2010 द्वारा राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों

एवं पिछड़े वर्गों की सूची परिचालित की गई है। कालक्रम से बिहार अधिनियम 3/1992 में अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाता रहा है, जिसे जन साधारण की जानकारी के लिए पुनः परिचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. उक्त परिपेक्ष्य में बिहार अधिनियम 3/1992 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2)की अद्यतन सूची सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचालित कर दिया जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम एवं संकल्प की प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाए।

विश्वासभाजन,  
नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

**अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची  
(अनुसूची-1)**

1	कपरिया	1	Kapadia
2	कानू/हलवाई	2	Kanu/Halwai
3	(विलोपित)	3	Deleted
4	कलन्दर	4	Kalandar
5	कोछ	5	Kochh
6	कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र	6	Kurmi (Mahto) (Jharkhand autonomous area)
7	केवट (कउट)	7	Kewat (Kaut)
8	कादर	8	Kadar
9	कोरा	9	Kaura
10	कोरकू	10	Korku
11	केवर्त	11	Kaibart
12	(विलोपित)	12	Deleted
13	खटवा	13	Khatwa
14	(विलोपित)	14	Deleted
15	खतौरी	15	Khatouri
16	खंगर	16	Khangar
17	खटिक	17	Khatik
18	खेलटा	18	Khelta
19	खतवे	19	Khatwe
20	(विलोपित)	20	Deleted
21	गोड़ी (छावी)	21	Gorhi (Chhabi)
22	गंगई (गणेश)	22	Gangai (Ganesh)
23	गंगोता	23	Gangota
24	विलोपित	24	Deleted
25	गंधर्व	25	Gandharb
26	गुलगुलिया	26	Gulgulia
27	विलोपित	27	Deleted
28	चांय	28	Chain
29	चपोता	29	Chapota
30	चन्द्रवंशी (कहार, कमकर)	30	Chandrabansi (Kahar, Kamkar)
31	टिकुलहार	31	Tikulhar

32	ढेकारु	32	Dhekaru
33	तांती (ततवा)	33	Tanti (Tatwa)
34	तमरिया	34	Tamaria
35	तुरहा	35	Turha
36	तियर	36	Tiar
37	विलोपित	37	Deleted
38	धानुक	38	Dhanuk
39	धामिन	39	Dhamin
40	धीमर	40	Dhimar
41	धनवार	41	Dhanwar
42	नोनिया	42	Nonia
43	नइया	43	Naiya
44	नाई	44	Nai
45	नामशुद्र	45	Namsudar
46	पाण्डी	46	Pandi
47	पाल (भेड़िहार, गड़ेरी)	47	Pal (Bherihar, Gareri)
48	प्रधान	48	Pradhan
49	पिनगनिया	49	Pingania
50	पहिरा	50	Pahira
51	वारी	51	Bari
52	बेलदार	52	Beldar
53	बिन्द	53	Bind
54	(विलोपित)	54	Deleted
55	सेखड़ा	55	Shekhra
56	बागदी	56	Bagdi
57	भुईयार	57	Bhuiyar
58	भार	58	Bhar
59	(विलोपित)	59	Deleted
60	भास्कर	60	Bhaskar
61	माली (मालाकार)	61	Mali (Malakar)
62	मांगर	62	Mangar
63	मदार	63	Madar
64	मल्लाह	64	Mallah
65	मझवार	65	Majhwar
66	मारकन्दे	66	Markandey
67	मोरियारी	67	Moriyari
68	मलार (मालहोर)	68	Malar (Malhor)
69	मौलिक	69	Molik
70	राजधोबी	70	Rajdhobi
71	राजभर	71	Rajbhar
72	रंगवा	72	Rangwa
73	वनपर	73	Banpar
74	(विलोपित)	74	Deleted
75	सौटा (सोता)	75	Shota (Shota)
76	संतराश (केवल नवादा जिले के लिए)	76	Sang-Trash (for Nawada district only)
77	(विलोपित)	77	Deleted

78	अघोरी	78	Aghouri
79	अबदल	79	Abdal
80	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)	80	Kasab (Kasai)( Muslim)
81	चीक (मुस्लिम)	81	Chik (Muslim)
82	डफाली (मुस्लिम)	82	Dafali (Muslim)
83	धुनिया (मुस्लिम)	83	Dhunia (Muslim)
84	धोबी (मुस्लिम)	84	Dhobi (Muslim)
85	नट (मुस्लिम)	85	Nut (Muslim)
86	पमरिया (मुस्लिम)	86	Pamaria (Muslim)
87	भठियारा (मुस्लिम)	87	Bhathiara (Muslim)
88	भाट (मुस्लिम)	88	Bhat (Muslim)
89	मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89	Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90	मिरियासीन (मुस्लिम)	90	Miriasin (Muslim)
91	मदारी (मुस्लिम)	91	Madari (Muslim)
92	मोरशिकार (मुस्लिम)	92	Meersshikar (Muslim)
93	साई/फकीर/दिवान/मदार (मुस्लिम)	93	Saeen/Fakir/Diwan/Madar (Muslim)
94	मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा/अंसारी)	94	Momin (Muslim)(Julaha/Ansari)
95	अमात	95	Amat
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	96	Churihar (Muslim)
97	प्रजापति (कुम्हार)	97	Prajapati (Kumhar)
98	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	98	Raen or Kunjara (Muslim)
99	सोयर	99	Soyar
100	ठकुराई (मुस्लिम)	100	Thakurai (Muslim)
101	नागर	101	Nagar
102	शेरशाहबादी	102	Shershahbadi
103	बक्खो (मुस्लिम)	103	Bakkho (Muslim)
104	अदरखी	104	Adrakhi
105	छीपी	105	Chhipi
106	तिली	106	Tili
107	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)	107	Idrisi or Darji (Muslim)
108	सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108	Saikalgar (Sikalgar ) (Muslim)
109	रंगरेज (मुस्लिम)	109	Rangrej (Muslim)
110	सिंदुरिया बनिया	110	Sinduria Bania
111	मुकरी (मुस्लिम)	111	Mukeri (Muslim)
112	ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी/ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	112	Itfarosh/Itafarosh/Gadheri/Itpaj Ibrahimi (Muslim)
113	बढ़ई	113	Barhi
114	पटवा	114	Patwa
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	115	Kamar (Lohar & Karmkar)
116	देवहार	116	Dewhar
117	सामरी वैश्य	117	Samari Vaishya

नोट:—उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए, जैसे तेली में दोनों :—हिन्दु तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992 ) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में जिन जातियों/वर्गों का समावेशन/विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है:-

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
2	'कानू' के साथ 'कानू/हलवाई' के रूप में शामिल किया गया।	संकल्प संख्या 1169, दिनांक 25.03.2010
6	कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिविजन के लिए विलोपित कर कुर्मी (महतो) झारखंड स्वाशासी क्षेत्र अंकित किया गया।	संकल्प संख्या 110, दिनांक 24.07.1997
22	गंगाई (नगेश) के स्थान पर गंगई (गणेश)	संकल्प संख्या 2836, दिनांक 21.08.2007
24	विलोपित (गोड़/गोंड़) (Gour/Gonr)	संकल्प संख्या 695, दिनांक 28.02.2007
27	विलोपित (गौड़) (Gour)	संकल्प संख्या 695, दिनांक 28.02.2007
30	कमकर	संकल्प संख्या 8, दिनांक 08.01.2004
64	(सुरहिया) विलोपित	संकल्प संख्या 653, दिनांक 22.02.2007
93	फकीर, दिवान, मदार (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 97, दिनांक 03.03.2003
94	जुलाहा/अंसारी	संकल्प संख्या 432, दिनांक 16.09.2002
95	अमात	बिहार अधिनियम 6/1996
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम 6/1996
97	प्रजापति (कुम्हार)	बिहार अधिनियम 6/1996
98	राईन या कुजरा (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम 6/1996
99	सोयर	बिहार अधिनियम 6/1996
100	ठकुराई (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 178, दिनांक 18.12.1995
101	नागर	संकल्प संख्या 135, दिनांक 04.09.1996
102	शेरशाहबादी	संकल्प संख्या 135, दिनांक 04.09.1996
103	बक्खो (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 183, दिनांक 27.11.1996
104	अदरखी	संकल्प संख्या 183, दिनांक 27.11.1996
105	छीपी	संकल्प संख्या 183, दिनांक 27.11.1996
106	तिली	संकल्प संख्या 109, दिनांक 24.07.1997
107	इदरीशी या दर्जी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 34, दिनांक 17.03.1998
108	सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम	संकल्प संख्या 165, दिनांक 20.12.1997
109	रंगरेज (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 211, दिनांक 10.04.2001
110	सिन्दुरिया बनिया	संकल्प संख्या 129, दिनांक 02.04.2002
111	मुकैरी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 673, दिनांक 23.11.2001
112	ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी इटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या 499, दिनांक 16.10.2003
113	बढ़ई	संकल्प संख्या 2844, दिनांक 12.06.2009
114	पटवा	संकल्प संख्या 2845, दिनांक 12.06.2009
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प संख्या 1170, दिनांक 25.03.2010
116	देवहार	संकल्प संख्या 2413, दिनांक 21.06.2010
117	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या 3799, दिनांक 15.12.2011

नोट:- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक- 3, 12, 14, 20, 37, 54, 59, 74, 77 पर अंकित जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

**पिछड़े वर्गों की सूची  
(अनुसूची-2)**

1	(विलोपित)	1	Deleted
2	कागजी	2	Kagji
3	विलोपित	3	Deleted
4	कुशवाहा (कोईरी)	4	Kushwaha (Koiri)
5	कोस्ता	5	Kosta
6	गद्दी	6	Gaddi
7	घटवार	7	Ghatwar
8	(विलोपित)	8	Deleted
9	चनउ	9	Chanau
10	जदुपतिया	10	Jadupatia
11	जोगी (जुगी)	11	Jogi (Jugi)
12	तमोली	12	Tamoli
13	तेली	13	Teli
14	विलोपित	14	Deleted
15	नालबंद (मुस्लिम)	15	Nalband (Muslim)
16	(विलोपित)	16	Deleted
17	परथा	17	Partha
18	विलोपित	18	Deleted
19	बड़ई	19	Barai
20	बनिया—(सूढ़ी, मोदक / मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठटेरा, कलवार (कलाल / एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, अवधबनिया, बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार(पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु), कैथल वैश्य / कथबनिया)	20	Bania (Sundi, Modak/Maira, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar (Kalal/Eraki)(Biahut Kalwar), Kamalapuri Vaishya, Mahuri Vaishya, Awadh Bania, Bangi Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Vaishya Poddar, Kasaudhan, Gandhbanik, Batham Vaishya, Goldar (For East/West Champaran) Kaithal Vaishya/ Kath Bania )
21	(विलोपित)		Deleted
22	यादव—(ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला)		Yadav- (Gwala, Ahir, Gora, Ghasi, Mehar, Sadgop, Lakshmi Narain Gola)
23	राजवंशी (रिसिया या पोलिया)		Rajbanshi (Risya or polia)
24	(विलोपित)		Deleted
25	रौतिया		Rautia
26	(विलोपित)		Deleted
27	लहेड़ी		Laheri
28	शिवहरी		Shivhari
29	सोनार		Sonar
30	सूत्रधार		Sutradhar
31	सुकियार		Sukiar
32	(विलोपित)		Deleted
33	ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन)		Isai Dharmawalambi (Harijan)
34	ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति)		Ishai Dharmawalambi (Any Pichari Jati)

35	कुर्मी		kurmi
36	भाट/भट/ब्रह्मभट्ट/राजभट (हिन्दू)		Bhaat/Bhat/Brahmbhat/Rajbhat (Hindu)
37	दांगी		Dangi
38	कुल्हैया		Kulhaiya
39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)		Jat (Hindu) (for Saharsa, Supaul, Madhepura and Araria districts)
40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)		Jat (Muslim) (For Madhubani, Darbhanga, Sitamarhi, Khagaria and Araria districts)
41	मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धौरैया प्रखण्ड के लिए)		Madaria (Muslim) (only for sanhaura Block of Bhagalpur District and Dhoriaia Block of Banka District )
42	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)		Donwar (only for Madhubani and Supaul Districts)
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)		Surjapuri Muslim (Excluding Shekh, Syed, Mallik, Mogal, Pathan)(only for Purnea, Katihar, Kishanganj and Araria districts)
44	मलिक (मुस्लिम)		Mallik (Muslim)
45	सैथवार	45	Sainthwar

**नोट:-** उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनों:- हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में जिन जातियों का समावेशन/विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है:-

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
03	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प संख्या 1170, दिनांक 25.03.2010
14	देवहार	संकल्प संख्या 2413, दिनांक 21.06.2010
18	बढ़ई	संकल्प संख्या 2844, दिनांक 12.06.2009
20	कसौधन	बिहार अधिनियम 6/1996
20	कलाल/एराकी	संकल्प संख्या 164, दिनांक 17.10.1996
20	गंधबनिक	संकल्प संख्या 110, दिनांक 24.07.1997
20	वियाहुत कलवार	संकल्प संख्या 79, दिनांक 28.05.1998
20	मोदक/मायरा	संकल्प संख्या 615, दिनांक 15.10.2001
20	बाथम वैश्य	संकल्प संख्या 102, दिनांक 21.03.2001
20	पोद्दार के स्थान पर वैश्य पोद्दार	संकल्प संख्या 2078, दिनांक 15.06.2007
20	गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु)	संकल्प संख्या 01, दिनांक 02.01.2002
20	कैथल वैश्य/कथ बनिया	संकल्प संख्या 248, दिनांक 24.06.2002
20	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या 283, दिनांक 05.06.2003
20	हलवाई	संकल्प संख्या 1169, दिनांक 25.03.2010
20	पटवा	संकल्प संख्या 2845, दिनांक 12.06.2009
22	सदगोप	संकल्प संख्या 3, दिनांक 09.01.2001
22	लक्ष्मी नारायण गोला	संकल्प संख्या 328, दिनांक 22.12.2000
35	कुर्मी (महतो) से (महतो) विलोपित	संकल्प संख्या 1292, दिनांक 13.04.2007
36	भाट/भट/ब्रह्मभट/राजभट (हिन्दू)	संकल्प संख्या 40, दिनांक 03.01.2007
37	दांगी	बिहार अधिनियम 6/1996
38	कुल्हैया	संकल्प संख्या 135, दिनांक 04.09.1996

39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-277, दिनांक 06.11.2000
40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-277, दिनांक 06.11.2000
41	मडरिया (मुस्लिम) (भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखण्ड के लिए)	संकल्प संख्या-177, दिनांक 13.05.2002
42	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-530, दिनांक 26.11.2002
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-500, दिनांक 16.10.2003
44	मलिक (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-3176, दिनांक 29.05.2008
45	सैथवार	संकल्प संख्या-1144 दिनांक 20.04.2011
20	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या-3799, दिनांक 15.12.2011

नोट:-पिछड़े वर्गों के अनुसूची-2 के क्रमांक-1, 3, 8, 14, 16, 18, 20 (सिन्दुरिया बनिया), 20 (हलवाई), 20 (पटवा), 21, 24, 26 एवं 32 में अंकित जातियों को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक क्रमशः 95, 115, 96, 116, 97, 113, 110, 02, 114, 111, 109, 98 एवं 107 पर समावेशित किया गया।

विश्वासभाजन,  
नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 269-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>